



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 फाल्गुन 1931 (श0)

(सं0 पटना 184)

पटना, बृहस्पतिवार, 18 मार्च 2010

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

18 मार्च 2010

एस०ओ० 53 दिनांक 18 मार्च 2010—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 की धारा-10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि ऐसा किया जाना राज्य हित में आवश्यक है, बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट के लिए स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए स्तम्भ 4 में उल्लिखित अवधि तक मनोरंजन-कर के भुगतान से विमुक्त करते हैं :-

क्र० सं०	मनोरंजन की प्रकृति	शर्त एवं निबंधन	अवधि का सीमा
1	2	3	4
1	वर्तमान छविगृह का उन्नयन/विस्तारीकरण /आधुनिकीकरण अथवा नये छविगृह का निर्माण।	वर्तमान छविगृह का उन्नयन/विस्तारीकरण /आधुनिकीकरण मद में अथवा नये छविगृह के निर्माण मद में 31 मार्च 2012 तक न्यूनतम 1 करोड़ का अतिरिक्त पूंजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन पुनः प्रारंभ/प्रारंभ किया गया हो एवं पूंजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो।	दो वर्ष

क्र० सं०	मनोरंजन की प्रकृति	शर्त एवं निबंधन	अवधि का सीमा
1	2	3	4
		2. स्वत्वधारी द्वारा विनिर्मित/नवनिर्मित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपत्र "I" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण-पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन प्रपत्र "II" में विमुक्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।	
2	वर्तमान छविगृह का उन्नयन/विस्तारीकरण /आधुनिकीकरण अथवा नये छविगृह/न्यू ट्वीन डिजीटल/मल्टीप्लेक्स सिनेमा केन्द्र का निर्माण।	वर्तमान छविगृह के उन्नयन/विस्तारीकरण /आधुनिकीकरण के मद में अथवा नये छविगृह/न्यू ट्वीन डिजीटल/मल्टीप्लेक्स सिनेमा केन्द्र के निर्माण मद में दिनांक 31.03.2012 तक न्यूनतम 1.5 करोड़ का पूंजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन पुनः प्रारंभ/प्रारंभ किया गया हो एवं पूंजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो। 2. स्वत्वधारी द्वारा विनिर्मित/नवनिर्मित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपत्र "I" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण-पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन प्रपत्र "II" में विमुक्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।	तीन वर्ष
3	वर्तमान छविगृह का उन्नयन/विस्तारीकरण /आधुनिकीकरण अथवा नये छविगृह/न्यू ट्वीन डिजीटल/मल्टीप्लेक्स सिनेमा केन्द्र का निर्माण।	वर्तमान छविगृह का उन्नयन/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण के मद में अथवा नये छविगृह/न्यू ट्वीन डिजीटल /मल्टीप्लेक्स सिनेमा केन्द्र के निर्माण के मद में दिनांक 31.03.2012 तक न्यूनतम रु० 3 करोड़ का पूंजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन पुनः प्रारंभ/प्रारंभ किया गया हो एवं पूंजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो। 2. स्वत्वधारी द्वारा विनिर्मित/नवनिर्मित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपत्र "I" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत	पांच वर्ष

क्र० सं०	मनोरंजन की प्रकृति	शर्त एवं निबंधन	अवधि का सीमा
1	2	3	4
		करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण-पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन प्रपत्र "II" में विमुक्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।	

2. उपर्युक्त सुविधा वह स्वत्वधारी प्राप्त करेगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्य उपलब्ध सुविधा उक्त अवधि के दौरान पूर्व में नहीं प्राप्त किया गया हो।

3. यह अधिसूचना पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 119 दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 के क्रम में प्रभावी होगी।

4. यह तुरत प्रवृत्त होगी।

(सं०—बिक्री—कर/अन्य कर—07/2009—1162)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

शुभकीर्ति मजुमदार,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

18 मार्च 2010

एस०ओ० 54 एस०ओ० 53 दिनांक 18 मार्च 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०—बिक्री—कर/अन्य कर—07/2009—1162)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

शुभकीर्ति मजुमदार,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 18th March 2010

S.O. 53, dated 18th March 2010—In exercise of the Powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 and upon being satisfied that it is necessary to do so in the interest of the State, the Governor of Bihar is hereby pleased to exempt, subject to conditions and restrictions specified in column 3 of the table appended hereto, payment of the entertainment tax for specified in column 2 for the period specified in column 4 thereof:-

Table

Sl. No.	Nature of Entertainment	Conditions and restrictions	Period
1	2	3	4
1.	Expansion/upgradation /modernization of existing theatre or construction of New theatre.	<p>The theatre commences commercial exhibition after making capital investment of a minimum of Rs. One crore upto dated 31st March 2012 in respect of expansion/upgradation/ modernization of existing theatre or construction of New theatre and the capital investment has been certified by the Licensing Authority.</p> <p>2. The owner of the theatre shall apply for exemption to the Joint Commissioner (Admn.) in Form I one month before commencing commercial exhibition in the upgraded/newly constructed theatre and the Joint Commissioner (Admn.) shall issue the exemption certificate in Form II upon the production of the certificate regarding total capital investment issued by the Licensing Authority.</p>	Two years
2.	Construction of New Theatres/Twin Digital Cinema Centre/ Multiplexes or Expansion/ upgradation /modernization of existing theatre	<p>The theatre commences commercial exhibition after making capital investment of a minimum of Rs. 1.5 crore upto dated 31st March 2012 in respect of construction of New Theatres/ Twin Digital Cinema Centre/ Multiplexes or in expansion/upgradation /modernization of existing theatre and the capital investment has been certified by the Licensing Authority.</p> <p>2. The owner shall apply for exemption to the Joint Commissioner (Admn.) in Form I one month before commencing commercial exhibition in the upgraded/ newly constructed theatre and the Joint Commissioner (Admn.) shall issue the exemption certificate in Form II upon the production of the certificate regarding total capital investment issued by the Licensing Authority.</p>	Three years
3.	Construction of New Theatres/Twin Digital Cinema Centre/ Multiplexes or Expansion/upgradation /modernization of	<p>The theatre commences commercial exhibition after making capital investment of a minimum of Rs. 3.0 crore upto dated 31st March 2012 in respect of construction of New Theatres/ Twin Digital Cinema Centre/ Multiplexes or in expansion/upgradation /modernization of existing theatre and the</p>	Five years

Sl. No.	Nature of Entertainment	Conditions and restrictions	Period
1	2	3	4
	existing theatre	capital investment has been certified by the Licensing Authority. 2. The owner shall apply for exemption to the Joint Commissioner (Admn.) in Form I one month before commencing commercial exhibition in the upgraded/ newly constructed theatre and the Joint Commissioner (Admn.) shall issue the exemption certificate in Form II upon the production of the certificate regarding total capital investment issued by the Licensing Authority.	

2. The above facility shall be available to those owner who have not availed earlier any other available facility under the act during the said period.

3. This notification shall be effective in continuation with Notification No- 119 dated 29th December 2005.

4. It shall come into force at once.

(File No-Bikri kar/Anyar kar-07/2009—1162)

By order of the Governor of Bihar,

SUBHAKIRTI MAJUMDAR,

Commissioner-cum-Principal Secretary.

प्रपत्र I**आवेदन I**

1. स्वत्वधारी का नाम एवं पूरा पता :-
2. व्यवसाय का स्वभाव (यथा निजी स्वामित्व, साक्षेदारी, अविभाजित हिन्दु संयुक्त परिवार कम्पनी आदि) :-
3. मनोरंजन की प्रकृति :-
4. छविगृह/न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र/मल्टीप्लैक्स का नाम एवं पूरा पता :-
5. विनिर्मित वर्तमान छविगृह/नये छविगृह/न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र/ मल्टीप्लैक्स में कार्य प्रारंभ होने की तिथि :-
6. पूंजी निवेश का परिमाण :-
7. वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने की अनुमानित तिथि :-
8. छविगृह पर बकाये की स्थिति (अगर छविगृह उन्नयन का मामला हो) :-

मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरे सर्वोत्तम जानकारी में सही एवं सत्य हैं। मेरे द्वारा प्रदर्शन प्रारंभ करने के सात दिनों के अन्दर अनुज्ञप्ति निर्गमन करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

तिथि :-

स्थान :-

आवेदक का नाम

स्वत्वधारी/स्वत्वधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का पदनाम

(आवेदन निजी स्वामित्व की स्थिति में व्यवसाय के स्वामी द्वारा, संयुक्त हिन्दु परिवार की स्थिति में कर्त्ता द्वारा, साक्षेदारी व्यवस्था की स्थिति में प्राधिकृत साक्षेदार द्वारा, कम्पनी या कारपोरेशन की स्थिति में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एवं किसी सोसाइटी, क्लब, एसोसियेशन या सरकार के विभाग के स्थिति में प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।)

FORM I

1. Name and complete address of the owner :-
2. Name of business (eg. Proprietorship, partnership, Hindu undivided Family, company etc.) :-
3. Nature of entertainment:-
4. Name and complete address of the Theatre/ New twin digital Cinema Centre/Multiplex:-
5. Date of commencement of upgradation/expansion/modernization of the existing Theatre or Construction of the Theatre, New twin digital Cinema Centre/Multiplex:-
6. Amount of Capital investment:-
7. Estimated date of commencement of commercial exhibition:-
8. Due in relation to the theatre (in case of upgradation):-

I/We hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge. I/We shall furnish the required certificate issued by the Licensing Authority within seven days of the commencement of commercial exhibition by me/us.

Date :-

Signature of the applicant

Place :-

Status in relation to the owner

(The application shall be signed by the owner of the business in case of a proprietorship firm, the Karta in the case of Hindu Undivided Family, the authorized partner in case of a partnership firm, the principle Executive officer in case of a company or Corporation and the In-charge in the case of a Society, Club, Association or a Department of the Government.)

प्रपत्र II

1. स्वत्वधारी का नाम एवं पूरा पता :-
2. व्यवसाय का स्वभाव (यथा निजी स्वामित्व, साक्षेदारी, अविभाजित हिन्दु संयुक्त परिवार कम्पनी आदि) :-
3. मनोरंजन की प्रकृति :-
4. छविगृह/न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र/मल्टीप्लैक्स का नाम एवं पूरा पता :-
5. विनिर्मित वर्तमान छविगृह/नये छविगृह/न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र/मल्टीप्लैक्स में कार्य प्रारंभ होने की तिथि :-
6. पूंजी निवेश का परिमाण :-
7. आवेदन समर्पित करने की तिथि :-
8. अनुज्ञप्ति करने वाले प्राधिकारी पदाधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गमन की तिथि :-
9. कर विमुक्ति की अवधि :-
10. विमुक्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :-

यह विमुक्ति अधिसूचना में दी गयी शर्तों के अधीन देय है ।

तिथि :-

स्थान :-

कार्यालय का मुहर

वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

.....प्रमंडल.....

FORM II

1. Name and complete address of the owner :-
2. Nature of business (eg. Proprietorship, partnership, Hindu undivided Family, company etc.) :-
3. Nature of entertainment:-
4. Name and complete address of the Theatre/ New twin digital Cinema Centre/ Multiplex:-
5. Date of commencement of upgradation of the Theatre/Construction of the Theatre, New twin digital Cinema Centre/Multiplex:-
6. Amount of Capital investment:-
7. Date of submission of application :-
8. Date of issuance of certificate by Licensing Authority :-
9. Period of exemption :-
10. Name and designation of the officer issuing the exemption certificate :-

This exemption is subject to conditions given in the notification.

Date :-

Place :-

Office Seal

Joint Commissioner of Commercial Taxes (Admin)

.....Division.....

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 184-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>